



10-GOLDEN-RULES-FOR-ROAD-SAFETY



STOP OR SLOW DOWN

Allow Pedestrian to cross first at uncontrolled zebra crossings. They have the Right of Way.



BUCKLE UP

So that your family and you are safe in the car. Seat Belt reduces chances of death of a car occupant in accident by over 60%.



OBEY TRAFFIC RULES AND SIGNS

To prevent road accidents.



OBEY SPEED LIMITS

For your own safety and that of others. In residential areas and market places the ideal speed is 20 kmph and the limit is 30 kmph.



KEEP VEHICLE FIT

To prevent frequent breakdowns and difficulty in controlling vehicle which may lead to accidents on road.



NEVER USE MOBILE WHILE DRIVING

To avoid distractions that lead to accidents.



WEAR HELMET

To protect your head while riding a two wheeler. A good quality helmet reduces the chances of severe head injury by over 70%.



NEVER DRIVE DANGEROUSLY

To ensure your own safety and that of other road users.



BE COURTEOUS

Share the road with all and be considerate. Never rage on the road. It is dangerous for you and other road users.



NEVER MIX DRINKING AND DRIVING

Be Responsible, Don't Drink and Drive.

सड़क सुरक्षा के 10 सुनहरे नियम



हेलमेट

सवारी करते समय दोनों सवारों के लिए हेलमेट पहनना ज़रूरी होता है क्योंकि दुर्घटना के समय ड्राइवर के साथ-साथ पीछे बैठे व्यक्ति को चोट लगने का खतरा बराबर का होता है



मोबाइल फोन

ड्राइव करते समय मोबाइल फोन का प्रयोग खतरनाक माना जाता है क्योंकि ऐसा करने से ड्राइविंग करते समय ध्यान भटकने और दुर्घटना होने की संभावना होती है। ड्राइविंग के समय सेल फोन का प्रयोग गैर-कानूनी होता है



बेल्ट पहनें

बेल्ट पहनें - कस के। उसे लॉक करें और अपने शरीर को बेल्ट के सम्मुख आगे की ओर ले जाएं। असली में क़ैश होने की स्थिति में, टक्कर के एकदम बाद आपका शरीर इसी अवस्था में होता है



गति सीमा का पालन करें

हम सभी जानते हैं कि दुर्घटना का खतरा कम करने के लिए हमें गति सीमा का पालन करना चाहिए। गति सीमा आमतौर पर ट्रैफिक चिह्न पर बताई गई होती है



ट्रैफिक नियम

ट्रैफिक नियम देश की ट्रैफिक प्रणाली में एक बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। ये नियम शहरों और कस्बों में ट्रैफिक जाम से बचने के लिए बनाए जाते हैं



धीरे हो जाएं या रुक जाएं

सड़क के जंक्शन, इंटरसेक्शन, पैदल यात्री मार्ग और सड़क के मोड़ पर धीरे हो जाएं या रुक जाएं और तब तक प्रतीक्षा करें जब तक कि आपको आगे मार्ग खाली हो जाने का यकीन नहीं हो जाता।



कभी शराब पीकर गाड़ी न चलाएं

शराब पीने के बाद कभी गाड़ी न चलाएं। न केवल यह... यदि आपको शक हो कि कोई व्यक्ति शराब पीकर गाड़ी चला रहा है तो तुरंत पुलिस को कॉल करें।



वाहन की फिटनेस

दुर्घटना के दौरान पीड़ितों की मृत्यु और विकलांगता की बढ़ती संख्या के चलते खतरे से बचने के लिए वाहन की फिटनेस अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जानी चाहिए।



ध्यानपूर्वक ड्राइविंग

ज़िंदगी के लिए सुरक्षित ड्राइविंग - समय रहते आप क्या करने जा रहे हैं इसके लिए दुसरो को चेतावनी देने के लिए अपने इंडिकेटर का प्रयोग करना न भूलें, लेकिन इतनी जल्दी भी नहीं कि दूसरे भ्रमित हो जाएं।



सड़क पर क्रोध करने से बचें

सड़क पर क्रोध करने के बजाय, आक्रामक ड्राइविंग से बचने के लिए सरल कदम उठा कर अपनी सहायता करें, शांत रहें और सभी के लिए सड़क सुरक्षित रखें

